फर्द अहकाम

बनाम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.6.10	पत्रावली कैम्प - ग्राम आपके हार मानोता में जमा हुई। पत्रावली का लोक अदालत की भावना से अवलोकन किया गया। कि आदिनांक तक तलबी नहीं हुई है। अतः वाद को C.P.C की धारा 09 R5 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल नम्बर शुमार होकर दर्ज नम्बर हो। बाद पूर्ति के कम हो। दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	